



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092023-248939
CG-DL-E-23092023-248939

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4029]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2023/भाद्र 31, 1945

No. 4029]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2023/BHADRA 31, 1945

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2023

का.आ. 4197(अ).— केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का.आ. 6189 (अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2022 द्वारा जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 30 दिसम्बर, 2022 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 424.69 हेक्टेयर (लगभग) या 1049.43 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में और ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और झारखंड सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि इसे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 424.69 हेक्टेयर (लगभग) या 1049.43 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए ; और

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि, उक्त अनुसूची में वर्णित 424.69 हेक्टेयर (लगभग) या 1049.43 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक धारक संख्यांक पीवीयूएनएल/बीएएन/पी2/एसईसी-9(1), तारीख 1 मई, 2023 का निरीक्षण उपायुक्त, जिला लातेहार - 829206, झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला मंत्रालय, कोर-2, 5वीं मंजिल, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110 092 के कार्यालय में या डी.जी.एम. (सीएम-सिविल), पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, पतरातु, जिला रामगढ़-829119, झारखण्ड या अपर महाप्रबंधक (सीएम), पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, पतरातु, जिला रामगढ़-829119, झारखण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

बनहरदी कोयला ब्लॉक

औरंगा कोलफील्ड

जिला-लातेहार, झारखण्ड

[रेखांक संख्यांक पीवीयूएनएल/बीएएन/पी2/एसईसी-9(1), तारीख 1 मई, 2023]

सभी अधिकार:

(क) राजस्व भूमि :

क्र.सं.	ग्राम	थाना	जिला	थाना संख्या	कुल क्षेत्रफल(लगभग)		टिप्पणियां
					हेक्टेयर	एकड़	
1.	बनहरदी	चंदवा	लातेहार	249	100.44	248.19	भाग
2.	बारी	चंदवा	लातेहार	251	2.59	6.41	भाग
3.	सबानो	लातेहार	लातेहार	329	13.89	34.32	भाग
4.	जगलदगा	लातेहार	लातेहार	328	0.09	0.22	भाग
कुल :					117.01	289.14	

(ख) वन भूमि:

क्र.सं.	ग्राम	थाना	जिला	थाना संख्या	कुल क्षेत्रफल(लगभग)		टिप्पणियां
					हेक्टेयर	एकड़	
1.	बनहरदी	चंदवा	लातेहार	249	184.06	454.81	भाग
2.	बारी	चंदवा	लातेहार	251	75.45	186.45	भाग
3.	सबानो	लातेहार	लातेहार	329	41.78	103.24	भाग
4.	जगलदगा	लातेहार	लातेहार	328	6.39	15.79	भाग
कुल :					307.68	760.29	

सारांश:

(क) कुल राजस्व भूमि: 117.01 हेक्टेयर(लगभग) या 289.14 एकड़(लगभग)

(ख) कुल वन भूमि : 307.68 हेक्टेयर (लगभग) या 760.29 एकड़ (लगभग)

(ग) सकल योग (क+ ख) : 424.69 हेक्टेयर (लगभग) या 1049.43 एकड़ (लगभग)

अर्जित किए गए राजस्व प्लेटों की सूची:

(1) ग्राम- बनहरदी :

3(भाग), 4, 5(भाग), 17(भाग), 24(भाग), 25(भाग), 26, 27(भाग), 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166(भाग), 167(भाग), 168(भाग), 169(भाग), 170, 171, 172, 173, 174(भाग), 175(भाग), 178(भाग), 179, 180, 181, 182, 183, 184(भाग), 186(भाग), 187, 188, 189, 190(भाग), 191(भाग), 197(भाग), 199(भाग), 201(भाग), 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208(भाग), 209(भाग), 210, 211(भाग), 212(भाग), 213(भाग), 214(भाग), 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348(भाग), 349(भाग), 350(भाग), 351(भाग), 360(भाग), 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380(भाग), 381(भाग), 382(भाग), 385(भाग), 386(भाग), 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396(भाग), 397(भाग), 398(भाग), 399, 400, 401(भाग), 732(भाग), 733(भाग), 734(भाग), 735(भाग), 738(भाग), 988(भाग), 989(भाग), 990(भाग), 991(भाग), 994(भाग), 995(भाग), 998(भाग), 999(भाग), 1003(भाग), 1004, 1005(भाग), 1038(भाग), 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084(भाग), 1085(भाग), 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129(भाग), 1130(भाग), 1131(भाग), 1147(भाग), 1154(भाग), 1155, 1156(भाग), 1157(भाग), 1158(भाग), 1159, 1160, 1161(भाग), 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191(भाग), 1192(भाग), 1193(भाग) और 1197(भाग).

(2) ग्राम-बारी:

1, 2(भाग), 3(भाग), 4(भाग), 5, 6(भाग), 8(भाग), 9(भाग), 10(भाग), 11(भाग), 12(भाग), 13, 14(भाग), 26(भाग), 28(भाग), 29(भाग), 30, 31(भाग), 32(भाग), 2831(भाग) और 2832.

(3) ग्राम-सबानो:

1254(भाग), 1258(भाग), 1259(भाग), 1260(भाग), 1926(भाग), 1927(भाग), 1928(भाग), 1929(भाग), 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939(भाग), 1944(भाग), 1946(भाग), 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974(भाग), 1975(भाग), 1976(भाग), 1977(भाग), 1978(भाग), 1979(भाग), 1980(भाग), 1981, 1982, 1983(भाग), 1984(भाग), 1985(भाग), 2001(भाग), 2003(भाग), 2007(भाग), 2008(भाग), 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027(भाग), 2028(भाग), 2029(भाग), 2030, 2031, 2032, 2033, 2034(भाग), 2035(भाग) और 2039(भाग).

(4) ग्राम-जगलदगा:

1067(भाग), 1119(भाग), 1120(भाग) और 1127(भाग).

वन कंटेस्टरल सर्वेक्षण में अर्जित किए गए प्लॉट संख्याक की सूची:

1. ग्राम बनहरदी : 3(भाग), 4, 5, 31, 32, 33, 44, 46, 62, 1181, 1182, 1183, 1184(भाग) और 1185(भाग).

2. ग्राम बारी : 1, 2(भाग), 3(भाग), 5(भाग), 6(भाग), 8(भाग), 9(भाग), 10(भाग), 12(भाग) और 2832.

3. ग्राम सबानो : 1119(भाग), 1120(भाग) और 1127(भाग).

4. ग्राम जगलदगा : 1254(भाग), 1259(भाग), 1960, 1961, 1967, 1968, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2027(भाग), 2034(भाग).

सीमा वर्णन:**रेखा: क-ख-ख1-ख2-ख3-ख4-ग:**

ब्लॉक के उत्तरी भाग में स्थित ग्राम बनहरदी (थाना चंदवा) में प्लॉट संख्या 732 में बिंदु 'क' से रेखा आरम्भ होती है। यह रेखा बनहरदी ग्राम के प्लॉट संख्या 738, 381, 382, 351, 988, 1147 और 1197 से गुजरते हुए बिन्दु संख्या 'क' दक्षिण दिशा से बढ़ते हुए और ग्राम बारी के वन भूमि पर प्लॉट संख्या 32, 29, 12, 10, 9 और 8 से गुजरते हुए पहुँचती है।

इसके पश्चात्, यह रेखा उत्तर-पश्चिम दिशा में बिंदु 'ख' से बढ़ते हुए ग्राम बारी के वन भूमि पर प्लॉट संख्या 6 में बिंदु 'ख1' तक पहुँचती है।

इसके पश्चात्, यह रेखा दक्षिण-पश्चिम दिशा में बिंदु 'ख1' से बढ़ते हुए ग्राम बारी के वन भूमि पर प्लॉट संख्या 6 में बिंदु 'ख2' तक पहुँचती है।

इसके पश्चात्, यह रेखा उत्तर-पश्चिम दिशा में बिंदु 'ख2' से बढ़ते हुए ग्राम बारी के वन भूमि पर प्लॉट संख्या 6 में बिंदु 'ख3' तक पहुँचती है।

इसके पश्चात्, यह रेखा दक्षिण-पश्चिम दिशा में बिंदु 'ख3' से बढ़ते हुए ग्राम बारी के वन भूमि पर प्लॉट संख्या 6 में बिंदु 'ख4' तक पहुँचती है।

इसके पश्चात्, यह रेखा उत्तर-पश्चिम दिशा में बिंदु 'ख4' से बढ़ते हुए ग्राम बारी के वन भूमि पर प्लॉट संख्या 6 में बिंदु 'ग' तक पहुँचती है।

रेखा ग-ग1-ग2-ग3-ग4-ग5-घ:

इसके पश्चात् यह रेखा बिंदु 'ग' से उत्तर दिशा में बढ़ते हुए ग्राम बारी के वन भूमि पर प्लॉट संख्या 3 से गुजरते हुए इसी प्लॉट संख्या में बिंदु 'ग1' तक पहुँचती है।

इसके पश्चात् यह रेखा बिंदु 'ड.15' से दक्षिण पूर्व दिशा में बढ़ते हुए ग्राम बनहरदी के प्लाट संख्या 190, 191, 197 और 199 से गुजरते हुए प्लाट संख्या 208 में बिंदु 'ड.16' तक पहुँचती है।

इसके पश्चात् यह रेखा बिंदु 'ड.16' से दक्षिण पूर्व दिशा में बढ़ते हुए ग्राम बनहरदी के प्लाट संख्या 208 से गुजरते हुए प्लाट संख्या 209 में बिंदु 'ड.17' तक पहुँचती है।

इसके पश्चात् यह रेखा बिंदु 'ड.17' से दक्षिण पूर्व दिशा में बढ़ते हुए ग्राम बनहरदी के प्लाट संख्या 212 से गुजरते हुए प्लाट संख्या 211 में बिंदु 'ड.18' तक पहुँचती है।

इसके पश्चात् यह रेखा बिंदु 'ड.18' से दक्षिण पूर्व दिशा में बढ़ते हुए ग्राम बनहरदी के प्लाट संख्या 211, 214 और 213 गुजरते हुए प्लाट संख्या 400 के बिंदु 'ड.19' तक पहुँचती है।

इसके पश्चात् यह रेखा बिंदु 'ड.19' से पूर्व दिशा में बढ़ते हुए ग्राम बनहरदी के प्लाट संख्या 401, 400 और 401 से गुजरते हुए प्लाट संख्या 398 में बिंदु 'ड.20' तक पहुँचती है।

इसके पश्चात् यह रेखा बिंदु 'ड.20' से उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ते हुए ग्राम बनहरदी के प्लाट संख्या 398 और 397 से गुजरते हुए प्लाट संख्या 734 में बिंदु 'ड.21' तक पहुँचती है।

इसके पश्चात् यह रेखा बिंदु 'ड.21' से उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ते हुए ग्राम बनहरदी के प्लाट संख्या 733 से गुजरते हुए प्लाट संख्या 732 में बिंदु 'क' तक पहुँचती है।

[फा. सं. 43015/14/2021-एलएआईआर]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2023

S.O. 4197(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 6189(E), dated the 30th December, 2022, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 30th December, 2022, the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands measuring 424.69 hectares (approximately) or 1049.43 acres (approximately) and all rights in or over such lands specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the aforesaid report and after consulting the Government of Jharkhand, is satisfied that the lands measuring 424.69 hectares (approximately) or 1049.43 acres (approximately) and all rights in or over such lands as described in the said Schedule appended here to should be acquired;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the land measuring 424.69 hectares (approximately) or 1049.43 acres (approximately) and all rights in or over such lands as described in the said Schedule are hereby acquired.

The plan bearing number PVUNL/BAN/P2/SEC-9(1), dated the 1st May, 2023 of the area covered by this notification may be inspected at the office of the Deputy Commissioner, District Latehar-829206, Jharkhand or at the office of the Coal Controller, Office of the Coal Controller's Organization, Ministry of Coal, Core-2, 5th Floor, Scope Minar, Laxmi Nagar, Delhi-110 092 or at the office of the DGM(CM-Civil), Patratu Vidyut Utpadan Nigam Limited, Patratu, District Ramgarh-829119, Jharkhand or at the office of the of the Additional General Manager (CM), Patratu Vidyut Utpadan Nigam Limited, Patratu, District Ramgarh-829119, Jharkhand.

SCHEDULE

Banhardih Coal Block
Auranga Coalfield
District-Latehar, Jharkhand

[Plan bearing number PUVNL/BAN/P2/SEC-9(1), dated the 1st May, 2023]

ALL RIGHTS:

(A) Revenue land :

Serial number	Village	Thana	District	Thana number	Total area (approximately)		Remarks
					Hectares	Acres	
1.	Banhardih	Chandwa	Latehar	249	100.44	248.19	Part
2.	Bari	Chandwa	Latehar	251	2.59	6.41	Part
3.	Sabano	Latehar	Latehar	329	13.89	34.32	Part
4.	Jagaldaga	Latehar	Latehar	328	0.09	0.22	Part
Total :					117.01	289.14	

(B) Forest land:

Serial number	Village	Thana	District	Thana number	Total area (approximately)		Remarks
					Hectares	Acres	
1.	Banhardih	Chandwa	Latehar	249	184.06	454.81	Part
2.	Bari	Chandwa	Latehar	251	75.45	186.45	Part
3.	Sabano	Latehar	Latehar	329	41.78	103.24	Part
4.	Jagaldaga	Latehar	Latehar	328	6.39	15.79	Part
Total :					307.68	760.29	

SUMMARY:

(A) Total Revenue Land: 117.01 hectares (approximately) or 289.14 acres (approximately)

(B) Total Forest Land : 307.68 hectares (approximately) or 760.29 acres (approximately)

(C) Grand Total (A+B): 424.69 hectares (approximately) or 1049.43 acres (approximately)

List of Revenue plot number acquired:

(1) Village-Banhardih :

3(Part), 4, 5(Part), 17(P), 24(P), 25(P), 26, 27(P), 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166(P), 167(P), 168(P), 169(P), 170, 171, 172, 173, 174(P), 175(P), 178(P), 179, 180, 181, 182, 183, 184(P), 186(P), 187, 188, 189, 190(P), 191(P), 197(P), 199(P), 201(P), 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208(P), 209(P), 210, 211(P), 212(P), 213(P), 214(P), 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348(P), 349(P), 350(P), 351(P), 360(P), 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380(P), 381(P), 382(P), 385(P), 386(P), 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396(P), 397(P), 398(P), 399, 400, 401(P), 732(P), 733(P), 734(P), 735(P), 738(P), 988(P), 989(P), 990(P), 991(P), 994(P), 995(P), 998(P), 999(P), 1003(P), 1004, 1005(P), 1038(P), 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129(P), 1130(P), 1131(P), 1147(P), 1154(P), 1155, 1156(P), 1157(P), 1158(P), 1159, 1160, 1161(P), 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184(P), 1185(P), 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191(P), 1192(P), 1193(P) and 1197(P).

(2) Village- Bari:

1, 2(P), 3(P), 4(P), 5, 6(P), 8(P), 9(P), 10(P), 11(P), 12(P), 13, 14(P), 26(P), 28(P), 29(P), 30, 31(P), 32(P), 2831(P) and 2832.

(3) Village-Sabano :

1254(P), 1258(P), 1259(P), 1260(P), 1926(P), 1927(P), 1928(P), 1929(P), 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939(P), 1944(P), 1946(P), 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974(P), 1975(P), 1976(P), 1977(P), 1978(P), 1979(P), 1980(P), 1981, 1982, 1983(P), 1984(P), 1985(P), 2001(P), 2003(P), 2007(P), 2008(P), 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027(P), 2028(P), 2029(P), 2030, 2031, 2032, 2033, 2034(P), 2035(P) and 2039(P).

(4) Village-Jagaldaga :

1067(P), 1119(P), 1120(P) and 1127(P).

List of forest cadastral survey plot number acquired:

1. Village Banhardih : 3(Part), 4, 5, 31, 32, 33, 44, 46, 62, 1181, 1182, 1183, 1184(Part) and 1185(Part).
2. Village Bari : 1, 2(Part), 3(Part), 5(Part), 6(Part), 8(Part), 9(Part), 10(Part), 12(Part) and 2832.
3. Village Sabano : 1119(Part), 1120(Part) and 1127(Part).
4. Village Jagaldaga : 1254(Part), 1259(Part), 1960, 1961, 1967, 1968, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2027(Part) and 2034(Part).

Boundary Description:**Line A-B-B1-B2-B3-B4-C:**

The Line Starts at a point 'A' in plot no 732 of village Banhardih (Thana: Chandwa) located on northern part of the block. The line extends from point number 'A' trending in south direction passing through plot numbers 738, 381, 382, 351, 988, 1147 and 1197 of Banhardih village and plot numbers 32, 29, 12, 10, 9 and 8 on forest land of Bari village reaches to point number 'B' in plot number 8 on forest land of Bari village.

Thereafter, this line extends from point 'B' trending in north-west direction and reaches at point 'B1' in plot number 6 on forest land of Bari village.

Thereafter, this line extends from point 'B1' trending in south west direction and reaches at point 'B2' in plot number 6 on forest land of Bari village.

Thereafter, this line extends from point 'B2' trending in north-west direction and reaches at point 'B3' in plot number 6 on forest land of Bari village.

Thereafter, this line extends from point 'B3' trending in south-west direction and reaches at point 'B4' in plot number 6 on forest land of Bari village.

Thereafter, this line extends from point 'B4' trending in north-west direction and reaches at point 'C' in plot number 6 on forest land of Bari village.

Line: C-C1-C2-C3-C4-C5-D:

Thereafter, this line extends from point 'C' trending in north direction passing through plot number 3 on forest land of Bari village and reaches to point number 'C1' in same plot.

Thereafter, this line extends from point 'C1' trending in north west direction passing through plot number 3 on forest land of Bari village reaches to point number 'C2' in plot number 2 on forest land of Bari village.

Thereafter, this line extends trending from point number 'C2' in north west direction passing through plot number 2 on forest land of Bari village reaches to point no. 'C3' in plot number 1185 on forest land of Banhardih village.

Thereafter, this line extends from point number 'C3' trending in north west direction passing through plot number 1185 on forest land in Banhardih village reaches to point number 'C4' in plot number 1184 on forest land of Banhardih village.

Thereafter, this line extends from point number 'C4' trending in north west direction passing through plot number 1184 on forest land in Banhardih village reaches to point number 'C5' and further point number 'D' in plot number 1120 on forest land of Jagaldaga village.

Line:D-E:

Thereafter, this line extends from point number 'D' trending in north direction passing through plot number 1120 on forest land of Jagaldaga village and plot number 2034 of Sabano Village and 2028, 2039, 2007, 2001, 1979, 1983, 1946 and 1926 reaches to point number 'E' in plot number 1254 on forest land of Sabano Village.

Line: E-E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20-E21:

Thereafter, this line extends from point 'E' trending in south east direction passing through plot number 1254 in forest land of Sabano village reaches to point number 'E1' in plot number 1259 of Sabano Village.

Thereafter, this line extends from point 'E1' trending in south east direction passing through plot number 1254 on forest land of Sabano village reaches to point number 'E2' in plot number 1259 on forest land of Sabano village.

Thereafter, this line extends from point 'E2' trending in south east direction passing through plot number 1259 on forest land of Sabano village reaches to point number 'E3' and 'E4' in plot number 1254 on forest land of Sabano village.

Thereafter, this line extends from point 'E4' trending in south east direction passing through plot number 1254 on forest land of Sabano Village reaches to point number 'E5' and 'E6' in plot number '3' on forest land of Banhardih village.

Thereafter, this line extends from point 'E6' trending in east direction passing through plot number '3' on forest land of Banhardih village reaches to point number 'E7' and 'E8' in the same plot.

Thereafter, this line extends from point 'E8' trending in south east direction passing through plot number 3 on forest land of Banhardih village reaches to point number 'E9' in the same plot.

Thereafter, this line extends from point 'E9' trending in south east direction passing through plot number 3 on forest land of Banhardih village reaches to point number 'E10' in plot number 27 and point number 'E 11' in plot number 17 on forest land of Banhardih village.

Thereafter, this line extends from point 'E11' trending in south direction passing through plot number 17 of Banhardih village reaches to point number 'E12' in plot number 17 of Banhardih village.

Thereafter, this line extends from point 'E12' trending in south west direction passing through plot numbers 17, 25 and 26 of Banhardih village reaches to point number 'E13' plot number 156 of Banhardih village.

Thereafter, this line extends from point 'E13' trending in south east direction passing through plot numbers 24, 163, 166 and 167 of Banhardih village reaches to point number 'E14' in plot number 169 of Banhardih village.

Thereafter, this line extends from point 'E14' trending in south east direction passing through plot numbers 174, 175, 178 and 184 of Banhardih village reaches to point number 'E15' in plot number 187 of Banhardih village.

Thereafter, this line extends from point 'E15' trending in south east direction passing through plot no. 190, 191, 197 and 199 of Banhardih village reaches to point number 'E16' in plot number 208 of Banhardih village.

Thereafter, this line extends from point 'E16' trending in south east direction passing through plot number 208 of Banhardih village reaches to point number 'E17' in plot number 209 of Banhardih village.

Thereafter, this line extends from point 'E17' trending in south east direction passing through plot number 212 of Banhardih village reaches to point number 'E18' in plot number 211 of Banhardih village.

Thereafter, this line extends from point 'E18' trending in south east direction passing through plot numbers 211, 214 and 213 of Banhardih village reaches to point number 'E19' in plot number 400 of Banhardih village.

Thereafter, this line extends from point 'E19' trending in east direction passing through plot number 401, 400 and 401 of Banhardih village reaches to point number 'E20' in plot number 398 of Banhardih village.

Thereafter, this line extends from point 'E20' trending in north east direction passing through plot number 398 and 397 of Banhardih village reaches to point number 'E21' in plot number 734 of Banhardih village.

Thereafter, this line extends from point 'E21' trending in north east direction passing through plot number 733 of Banhardih village reaches to point number 'A' in plot number 732 of Banhardih village.

[F. No. 43015/14/2021-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.